



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 466] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 1976/कार्तिक 6, 1898

No. 466] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 1976/KARTIKA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th October 1976

S.O. 697(E)/18A/IDRA/76.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972 (as amended from time to time), namely:—

In the said Order, under the heading "Members", for serial number 5 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"5. Shri H. H. Tyabji,
Deputy Secretary,
Ministry of Industry (Department of Industrial Development),
New Delhi".

[No. F. 25/5/72-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1976

का० आ० 697 (अ)/18ए/आई० जी० आर० ए०/76.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 608 (ड०)/18ए/आई० जी० आर० ए०/72, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, 'सदस्य' शीर्षक में क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“5. श्री एच० एच० तेयबजी,
उप सचिव,
उद्योग मंत्रालय,
(औद्योगिक विकास विभाग),
नई दिल्ली।”

[सं० फा० 25(5)/72—सी०यू० सी०]

प्ररुण कुमार घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976